


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
स. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 अप्रैल 2010—वैशाख 6, शक 1932

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2010

क्र. 677-रा.स.-यू.ए.-5-2010.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1637-रास-यू.ए.-5-08, दिनांक 20 अक्टूबर 2008 द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(2)(तीन) के तहत महामहिम कुलाधिपतिजी ने डॉ. जे. एस. पी. यादव, पूर्व अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (ASRB) नई दिल्ली को प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत किया था. डॉ. जे. एस. पी. यादव का निधन हो जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए स्थान पर महामहिम कुलाधिपतिजी ने मेथी चारूदत्त दिगम्बरराव, चेयरमैन, एग्रीकल्चरल साईंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, कृषि अनुसंधान भवन-1, पूसा, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है.

शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.